



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 106) पटना, बुधवार, 30 मार्च 2011

सं0 एम0-4-41 / 2006-2839 / वि0(2)

वित्त विभाग

संकल्प

29 मार्च 2011

विषय:—सरकार के विभागों एवं विभागाध्यक्षों के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विस्तार।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय संकल्प सं0 8585 दिनांक 10 अगस्त 2010 द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं प्रधान सचिव को 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक की स्थाई अग्रिम की वित्तीय शक्तियों का विस्तार बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 112(2) के अंतर्गत किया गया है।

इसी आलोक में गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना से गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा कार्यालय हेतु 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) रुपये स्थायी अग्रिम हेतु प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा के पश्चात् स्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विस्तारित शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिये अब महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह स्थायी अग्रिम है अतः व्यय का विकलन लोक लेखा 2 शीर्ष—8672—स्थायी अग्रदाय (व्यय)—101 सिविल में होगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधितों तथा महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
सचिव, (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 106-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>